

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17—मई 23, 2014 (वैसाख 27, 1936)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17—MAY 23, 2014 (VAISAKHA 27, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद—500 052, दिनांक 28 अप्रैल 2014

सं. 15011/5/2014—स्था.—संघ लोक सेवा आयोग के पत्र सं. 3/24 (40)/2013—एडीटी-3 दिनांक 04.03.2014 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्री मनीष कुमार शर्मा, सहायक कमांडेन्ट/एक्स, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सं. 033210049) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में मुख्य कवायद अनुदेशक के पद पर पे-बैंड-3, रुपए 15,600—39,100/— + ग्रेड पे रुपए 5400/— में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले लागू हो, दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

2. उन्हें यह विकल्प दिया जाता है कि वे अपने पैतृक वेतनमान या अकादमी में प्रतिनियुक्ति के पद पर वेतनमान यथा पे-बैंड रुपए 15,600—39,100/— + ग्रेड पे-रुपए 5,400/— संबद्ध नियमों के अधीन लागू होने वाले अन्य भत्तों के सहित ले सकते हैं। इस विकल्प का सुनिश्चयन नियुक्ति के एक महीने के भीतर कर देना चाहिए और एक बार सुनिश्चित होने पर यह अंतिम एवं बाध्य होगा।

अरुणा एम. बहुगुणा
निदेशक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 अप्रैल 2014

सं. ओ.दो-3671/2014-कार्मिक-डी.ए.-1-भारत सरकार ने श्री संजय ए. लाठकर, भा.पु.से. (जे0एच0 : 95), पुलिस उप महानिरीक्षक को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु. 37,400—67,000/- के वेतन बैंड (पी.बी.-4) तथा ग्रेड वेतन रु. 8,900/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस उप महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल का कार्यभार दिनांक 03/04/2014 (अपराह्न) को ग्रहण कर लिया है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 22 अप्रैल 2014

सं. ओ.दो. 6097/2014-कार्मिक-डी.ए.-4.—खेद सहित अधिसूचित किया जाता है कि 153 बटालियन के.रि.पु. बल के श्री इन्द्रजीत सिंह, उप.कमाण्डेंट (ईरला-6097) का दिनांक 07/04/2014 को बरांदा मोड, पुलिस स्टेशन-धीबरा, जिला-औरंगाबाद, राज्य बिहार में चलाये गये परिचालन अभियान(एस ए डी ओ) के दौरान आई.ई.डी. ब्लास्ट होने के कारण अपने जीवन का बलिदान किया। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 07/04/2014 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

मूल चन्द पंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) अहमदाबाद शाखा कार्यालय राजस्थान

जयपुर, दिनांक 2 मई 2014

क्रमांक: प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/124/2014-15--निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है:

- | | |
|---|---|
| 1. श्री राम प्रताप खटकर
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 30.04.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर
सेवानिवृत्त |
|---|---|

ह./- (अपठनीय)
उपनिदेशक

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात

अहमदाबाद, दिनांक 1 मई 2014

सं. डब्ल्यू.एम.आई/47(3)/वालयूम-I/ओ डब्ल्यू नं. 26--महालेखाकार(लेखा एवं हक). ने निम्नलिखित चार मंडल लेखा अधिकारी-। को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से प्रभावी रु. PB-III/रु. 15,600—39,100/- + 5,400/- G.P. के वेतनमान में वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी ग्रुप बी राजपत्रित के रूप में पदोन्नत करने की कृपा की है।

1. श्री आर. एन. रघुवंशी वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी के रूप में 04-02-2014

महालेखाकार (लेखा एवं हक). ने निम्नलिखित चार मंडल लेखा अधिकारी-II को भी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से प्रभावी रु. PB II/रु. 9,300—34,800/- + 4,800/- G.P. के वेतनमान में मंडल लेखा अधिकारी-I ग्रुप बी राजपत्रित के रूप में पदोन्नत करने की कृपा की है।

1. श्री राजेश कुमार गुप्ता वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी के रूप में 04-02-2014

ह./- (अपठनीय)

उप महालेखाकार (लेखा एवं वी.)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

दिल्ली छावनी-110010, दिनांक 24 अप्रैल 2014

सं. प्रशा.-1/1172/वरि.प्र.ग्रे./2013-14: राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान 37,400—67,000 रु. + ग्रेड वेतन 10,000 रु.) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री ए. के. जेना	17.02.2014
2.	श्री बीर सिंह नेगी	14.02.2014
3.	श्री ए. एम. खलखो	11.02.2014
4.	श्री हर्ष वैद्य	11.02.2014
5.	श्री प्रमोद कुमार	17.02.2014

अम्बरीश बर्मन

र.ले.वरि.सहा.म.नि.(प्रशा.)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171 004, दिनांक 30 अप्रैल 2014

सं. 5/1/2014.सी.पी.आई.--मार्च, 2014 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 1 अंक बढ़ कर 239 (दो सौ उनतालीस) अंकों के स्तर पर रहा।

एस. एस. नेगी

निदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 01 अप्रैल 2014

सं. 1/6(4)/2010-पावर/4219—राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 01.07.2012

से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर उनके सामने उल्लिखित ग्रेड एवं निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	इकाई
1.	राजेन्द्र पाल	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ई	पीबी-3 15,600-39,100/-	7,600/-	आरएपीएस-5 व 6
2.	राज कुमार भारद्वाज	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ई	पीबी-3 15,600-39,100/-	7,600/-	आरएपीएस-7 व 8
3.	राजेश कुमार जैन	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ई	पीबी-3 15,600-39,100/-	7,600/-	आरएपीएस-7 व 8
4.	ए. पी. पूर्ण	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ई	पीबी-3 15,600-39,100/-	7,600/-	टीएपीएस-1 व 2
5.	राजपूत एम. एल.	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी	वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ई	पीबी-3 15,600-39,100/-	7,600/-	एनपीसीआईएल मुख्यालय

2. उपरोक्त अधिकारियों ने दिनांक 01.07.2012 (पूर्वाहन) से अपने निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

सं. 1/6(4)/2010-पावर/4238—राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी रूप में आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर उनके सामने उल्लिखित ग्रेड एवं निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	इकाई
1.	ए. के. सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/एच+	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	एचएजी वेतनमान रु. 67,000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि @3%- रु. 79,000/-)	--	टीएपीएस 1 एवं 2
2.	बी. बी. कपूर	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	37,400-67,000/-	8,700/-	आरएपीएस 5 एवं 6
3.	मनवीर सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	37,400-67,000/-	8700	एनएपीएस

2. उपरोक्त में से क्रम सं. 1 के अधिकारी ने दिनांक 25.11.2013 (पूर्वाहन) से प्रभावी रूप में और क्रम सं. 2 एवं 3 के अधिकारियों ने दिनांक 01.07.2013 (पूर्वाहन) से प्रभावी रूप में अपने द्वारा धारित निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुंबई- 400 094, दिनांक 22 अप्रैल 2014

सं. ईईआरबी/प्रशासन/94/2013/1323--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद श्रीमति मल्लिका सी. नायर, निजी सचिव (अननुसचिवीय) को दिनांक 25 नवम्बर 2013 से अगले आदेश तक नियमित आधार पर परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में वरिष्ठ निजी सचिव (वेतन बैंड पीबी-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. मोहन बाबू
मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. एईआरबी/प्रशासन/94/2013/1324--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद श्री पी. नारायणन, निजी सचिव (अननुसचिवीय) को दिनांक 3 दिसंबर 2013 से अगले आदेश तक नियमित आधार पर परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में वरिष्ठ निजी सचिव (वेतन बैंड पीबी-2, रु 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. मोहन बाबू
मुख्य प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय
हैदराबाद-500 016, दिनांक 11 अप्रैल 2014

सं. पखनि-16/1/95-भर्ती /Vol. IV/529--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री विनोद कुमार, सी. के. सहायक (पीबी-2: रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), प.उ.वि, मुंबई को आस्थाई हैसियत में दिनांक 24.03.2014 (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जयपुर में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी (पीबी-2: रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए.एस. लक्ष्मण राव
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

दिनांक 15 अप्रैल 2014

सं. पखनि-4/3/2013-भर्ती/486--राष्ट्रपति महोदय परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित व्यक्ति को वैज्ञानिक अधिकारी "सी" के रूप में अस्थायी हैसियत में अगले आदेशों तक वेतन-बैंड -3 रु.15,600--39,100/-+ ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर नियुक्त करते हैं :--

नाम	कार्यग्रहण तिथि
श्री अर्घ्य मंडल	01-08-2013 (F.N.)

ए.एस.लक्ष्मण राव
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500 062, दिनांक 29 अप्रैल 2014

सं. नाईस/काप्रभ I./03/03/672--राष्ट्रपति द्वारा, श्री अम्बाटी अनिल करुणाकर को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600--39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 02.12.2013 के पूर्वाहन से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ I./03/03/673--राष्ट्रपति द्वारा, श्री एम. मंदिरा मूर्ति को जर्कोनियम परिसर, पलयकायल (नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद की इकाई) में वेतन बैंड-3 में रु.15,600--39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 12.12.2013 के पूर्वाहन से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/03/674--राष्ट्रपति द्वारा, श्री विनीत शर्मा को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 23.12.2013 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ 1./03/03/675--राष्ट्रपति द्वारा, श्री बाबू वी.एस. को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में वेतन बैंड-3 में रु.15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 07.01.2014 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी-III

कम्पनी मामले मन्त्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 मार्च 2014

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जीवी एग्रो केम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अधिसूचना संख्या-560(3)/85313/13038—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त पर मैसर्स जीवी एग्रो केम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

प्रेमलाल भंजुराम मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2014

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2000—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है।

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	2	3
1	31497	श्री क्रशना एजुकेशन एंड ईमीग्रेशन कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	35760	जेकेआर पम्पस प्राइवेट लिमिटेड
3	33652	बी बी एलोएस प्राइवेट लिमिटेड
4	34196	गुलीवर ओवरसिस लिमिटेड
5	21682	यूरोमैटीक टैकस्टाईलस लिमिटेड
6	32489	पंजाब एजुकेशन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
7	32748	ब्लाक रोक डिवैल्परस एंड प्रमोटरस प्राइवेट लिमिटेड
8	35655	सेफ मनी मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	30774	यूनीरोयल बिल्डरस एंड प्रमोटरस प्राइवेट लिमिटेड
10.	33443	एपीएस इनोवेटिव क्रीएशनस प्राइवेट लिमिटेड
11.	34881	पोशे क्रीएशनस प्राइवेट लिमिटेड
12.	10658	नीविआ एसथैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
13	09890	श्री राम सिलीकेटस प्राइवेट लिमिटेड
14	30598	अकाल क्रपा ओटो सलयूशनस प्राइवेट लिमिटेड
15	17750	कैस्टलस फिल्मस लिमिटेड
16	31491	यूरो वैरीटसक्वालिटी एंनशोरस प्राइवेट लिमिटेड
17	34664	यशराज पैट्रो प्राइवेट लिमिटेड
18	30573	बरिक रियल इस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	31417	स्काईस्कैप एजुकेशन एंड ईमीग्रेशन कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
20	34470	सरी विनायक कोनसैप्ट प्राइवेट लिमिटेड
21	33515	सोलेरियम पावर प्राइवेट लिमिटेड
22	34255	इंमपैकेबल हासपीटैलटी प्राइवेट लिमिटेड
23	34358	ओएस टेक्नोलिजीस प्राइवेट लिमिटेड
24	35326	एसीएमइ टयूब्स एंड प्रोफाईलस प्राइवेट लिमिटेड
25	31992	सकाईस्टार टैलीकाम प्राइवेट लिमिटेड
26	19590	राघव केशव फूडस प्राइवेट लिमिटेड
27	34562	जीबी मैडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
28	31426	एवीपी मोटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
29	36728	फ्यूचरवे इंडिया एंटरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
30	07354	इटीसी कम्प्यूटर मोल्डस एंड डाईस प्राइवेट लिमिटेड
31	31360	पैसीफिक ईमीग्रेशन एंड कैरियर डिवैलपमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
32	33893	ग्लोबल स्टूडेंट एथलैट्स एंड एक्डमिक्स प्राइवेट लिमिटेड
33	29823	अमर ओटो कम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
34	33021	वीसा एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड
35	37186	दिशा फिल्मस एंड म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
36	31710	तरक्की.कोम एजुकेशन टेक्नोलोजी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
37	26473	वे टू वैस्ट इमीग्रेशन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
38	36236	पंजाब फ्रेश एंड प्रोसैसड फूडस प्राइवेट लिमिटेड
39	33394	साई शिवालिक लैंड प्रोमोटरस एंड डिवैपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
40	32871	माईलस्टोन इनफो सोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
41	32616	शरन एग्रो इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
42	32508	फूटलूस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
43	32108	फैमिली एशयोर इनशोरेंस सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
44	15848	एकेवी कैपिटल एंड फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड

राज सिंह
राजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चन्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

ग्वालियर-474009, दिनांक 5 मार्च 2014

सं. कर. जीसी/560(5)/2013/9630— कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गई हैं:—

सं.	सीआईएन	कम्पनी का नाम
1	2	3
1	U05131MP2005PTC017657	प्रोजेक्ट फैशन्स प्रायवेट लिमिटेड
2	U52393MP2004PTC016570	झवर डायमंड एन्ड ज्वेलरी प्रायवेट लिमिटेड
3	U74140MP2007PTC019599	इनकेन सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
4	U25202MP2007PTC019726	पार्थ पोलीपैक प्रायवेट लिमिटेड
5	U67110MP2003PTC015998	ईजी फायनेन्सियल एन्ड मार्केटिंग कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
6	U24232MP2012PTC028134	मेलेडीज फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
7	U92400MP2010PTC023552	समन्वय एन्टरटेनमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
8	U45201MP2010PTC024389	डिवाईन सीबीकोन प्रायवेट लिमिटेड
9	U40100MP2009PLC022082	एम्पले पॉवर लिमिटेड
10	U40100MP2010PTC023553	दक्ष एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड
11	U40109MP2008PTC021120	डी बी पॉवर झारखंड प्रायवेट लिमिटेड
12	U40100MP2010PTC023555	डाल्वी पॉवर एन्ड एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड
13	U45200MP2009PTC022423	ड्रोना इन्फ्रामाईन एन्ड पॉवर प्रायवेट लिमिटेड
14	U40100MP2010PTC023556	विन्ध्या पॉवर प्रायवेट लिमिटेड
15	U74140MP2010PTC023486	न्युविज टेलिकॉम सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड
16	U36100MP2010PTC023945	तहा प्रोडक्ट्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
17	U92112MP1994PTC008043	शिवा लूम एन्ड टेक्सटाईल मशीनरी प्रायवेट लिमिटेड
18	U45200MP2010PTC023367	एसएसबीएस इंजीनियर एन्ड कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड

1	2	3
19	U60230MP2012PTC028087	श्री कलयानिका कार्गोटर्मिनल प्रायवेट लिमिटेड
20	U51505MP2008PTC020836	चामुण्डा आयरन एन्ड स्टील प्रायवेट लिमिटेड
21	U51502MP2008PTC020837	सिध्दी आयरन एन्ड स्टील प्रायवेट लिमिटेड
22	U51502MP2008PTC020840	ग्रोमोर स्टील प्रायवेट लिमिटेड
23	U07010MP2006PTC018516	मालीनाथ रियल एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
24	U45201MP2007PTC020039	सोधिया कन्सट्रक्शन्स प्रायवेट लिमिटेड
25	U70100MP2009PLC021529	रॉयल सन रियल एस्टेट एन्ड एलाइड सर्विसेज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
26	U18101MP2007PTC019408	टच अप बिजनेस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
27	U52590MP2010PTC023851	कन्चे मल्टीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड
28	U24233MP2008PTC020456	सोहमश्री बिजनेस प्रायवेट लिमिटेड
29	U52510MP2010PTC023784	कन्चे टेलिशॉपिंग प्रायवेट लिमिटेड
30	U52590MP2010PTC024456	जीआईसी नेटवर्क मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
31	U72200MP2007PTC020144	अक्शुन टेक्नॉलाजी प्रायवेट लिमिटेड
32	U72200MP2009PLC022215	साम इन्फो इंडिया लिमिटेड
33	U45201MP2001PTC014664	देव होम्स प्रायवेट लिमिटेड
34	U24232MP2001PTC014579	सुपरेक्स बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड
35	U24222MP1975PTC001318	सिनप्रो सरफेस कोटिंग्स प्रायवेट लिमिटेड
36	U65929MP1994PLC008221	डिजाईन फायनेन्स लिमिटेड
37	U72200MP2010PTC023682	सेवनसेन्ड साफ्टवेयर प्रायवेट लिमिटेड
38	U05110MP2004PTC016323	मर्केल्टाईल एक्विजि एन्ड फायनेन्सियल सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
39	U72200MP2011PTC025850	युवराज वेब सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड
40	U72200MP2010PTC023618	डुसीज इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेड
41	U74900MP2013PTC030406	आधविक मीडिया एन्ड एन्टरटेनमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
42	U67120MP2008PTC020927	सिनेक्थोर इन्वेस्टमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
43	U40109MP2009PTC021575	अटरिया एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड
44	U40109MP2009PTC021576	रहेवा एनर्जी सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
45	U24240MP2009PTC021522	ग्वालियर केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड
46	U72200MP2008PTC020721	कारवेशन सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड
47	U70100MP2010PTC024025	अल्बा लेण्ड डवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
48	U67190MP2009PTC021767	जी एस इन्वेस्टमेन्ट सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
49	U45200MP2010PTC024944	मॉ जानकी इन्फोस्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड
50	U67120MP2011PTC025981	फैक्ट फाइन्टर स्टाक ब्रोकर्स प्रायवेट लिमिटेड
51	U67120MP2007PTC019365	कानसस फायनेन्सियल सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
52	U14290MP2009PTC022417	प्लेनेट एक्सप्लोरेशन प्रायवेट लिमिटेड
53	U33112MP2001PTC014860	माईको फिनिश मेडिकल एन्ड प्ले इक्युप्मेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
54	U72200MP2013PTC030491	स्टेपट्रॉनिक्स इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्रायवेट लिमिटेड
55	U51395MP2010PTC023657	परामाउन्ट कनज्युमर सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
56	U72200MP2008PTC020395	रिझारिया इन्फोसिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
57	U67190MP2009PTC022186	स्टार वन इन्श्योर्ड लाईफ सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
58	U70100MP2011PTC025549	जेम्स बिल्डटेक प्रायवेट लिमिटेड
59	U05110MP2004PTC016625	आयुलाईफ नेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड

1	2	3
60	U45201MP2002PTC015286	अंशुमन बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड
61	U31100MP2009PTC022719	ओजोन ट्रांसफार्मर्स प्रायवेट लिमिटेड
62	U67120MP2008PTC020959	ट्रेडर शेरर्स एन्ड कमोडिटीज प्रायवेट लिमिटेड
63	U67120MP1999PTC013846	रामचन्द्र बदीनारायण इन्वेस्टमेंट्स प्रायवेट लिमिटेड
64	U67120MP2000PTC014472	आदित्य सिव्युनिटीज रतलाम प्रायवेट लिमिटेड
65	U01513MP2005PTC018081	रानी फूड पैकेजिंग प्रायवेट लिमिटेड
66	U15543MP1995PTC010305	श्रीयान फूड्स प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
67	U24233MP2011PLC026560	स्माईल लाईफ हर्बल्स इंडिया लिमिटेड
68	U31200MP2000PLC014415	एव्हीएन वीइन्फोटेक लिमिटेड
69	U31300MP2010PTC022901	फलेमेक्स कन्डक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
70	U01407MP2012PLC029440	जीतमे एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड

मुकेश कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में
कोलकाता, दिनांक 2 मई 2014

संख्या/ क.र./प.0.बं0./एसएम/560/2014 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 89 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए गये हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र० सं०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	2	3
1	U72900WB2005PTC104967	असार सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
2	U72900WB2005PTC106354	ऑक्सी जेन सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड
3	U72900WB2008PTC124440	आराध्य टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
4	U72900WB2008PTC126434	सुपरसोनिक कोमपुट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
5	U72900WB2008PTC127006	प्लाटून एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड
6	U72900WB2008PTC129107	पुल्सरवेव मिडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	U72900WB2008PTC130442	इक्सेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	U72900WB2009PTC134653	नास टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
9	U72900WB2009PTC135146	इन्फोर्मि व इन्फो टेक प्राइवेट लिमिटेड
10	U72900WB2009PTC136201	टरनिंग पाइंट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
11	U74120WB2008PTC121886	वंडरफूल फाइनेंशियल कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
12	U74120WB2008PTC121915	भोलेबाबा फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
13	U74120WB2008PTC121916	डाइमोना फाइनेंशियल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
14	U74120WB2008PTC124384	फ़ंडजोन कंसल्टेंट्स एंड एड्वाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
15	U74120WB2008PTC125642	खेमि मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
16	U74120WB2008PTC125649	सन्तोखी मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
17	U74120WB2008PTC125653	चामुंडा फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U74120WB2008PTC125657	चिन्तपूर्नी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U74120WB2008PTC125658	बाजरेसवरी एड्वाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
20	U74120WB2008PTC125673	खेमि एड्वाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
21	U74120WB2008PTC125674	रानीसति इंवेस्टमेंट एड्वाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
22	U74120WB2008PTC125675	रानीसति फाइनेंशियल एड्वाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
23	U74120WB2008PTC126110	नारायणी इंवेस्टमेंट मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
24	U74120WB2008PTC126111	चामुंडा फाइनेंशियल मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
25	U74120WB2008PTC126267	ज्वला एड्वाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
26	U74120WB2008PTC126331	चामुंडा इंवेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U74120WB2009PTC135678	रियल फ्रेंड्स प्लेसमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
28	U74140WB1982PTC035229	रोबर्टस म्क्लेयन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U74140WB1986PTC040654	बिनानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U74140WB1987PTC042540	कुबेर कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
31	U74140WB1989PTC048038	मैक्सकोन मेनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
32	U74140WB1992PTC056142	डीपीआर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U74140WB1993PTC060681	मिल्लेनियम रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
34	U74140WB1994PTC065918	सैंचुरी इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड
35	U74140WB2004PTC099215	वीएनवी एड्वाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U74140WB2005PTC105399	कोर्नूकोपजा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U74140WB2005PTC105717	देब इंजीन्यरिंग सर्वे एड्वाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
38	U74140WB2005PTC106214	एशुरेंस इन्फो-मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
39	U74140WB2006PTC108420	मिलटन गूड्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U74140WB2006PTC108985	बियाला मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
41	U74140WB2006PTC110818	पंचदेव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U74140WB2007PTC114045	मिसटिक इन्सपिरेसन प्राइवेट लिमिटेड
43	U74140WB2007PTC118229	साजन सजनी मैट्रमनी.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
44	U74140WB2007PTC118625	ड्रीम वेब कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
45	U74140WB2008PTC126179	टी. सेनगुप्ता एंड कंपनी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
46	U74140WB2008PTC126532	विनायक फाइनेंशियल एड्वाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
47	U74140WB2008PTC127101	एमक्वक्त कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
48	U74140WB2008PTC127168	नीड लाइफ केयर कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
49	U74140WB2008PTC127652	मल्टी एस्सूरेनस कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
50	U74140WB2008PTC130693	एम एस मल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
51	U74140WB2009PTC133710	इन्नोवटिव इनवारमेंटल मनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U74140WB2009PTC136272	पुरुसोत्तम कंसलटेंसी एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
53	U74140WB2009PTC137765	बागची कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
54	U74140WB2009PTC138915	ए एस ए फाइनेंशियल सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
55	U74140WB2009PTC140222	मेनूवर मल्टी-सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
56	U74140WB2009PTC140411	विनगेट एड्वाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
57	U74200WB2008PTC131311	प्रीसीसन हंडीक्रफ्ट्स एंड इन्टेरियरस प्राइवेट लिमिटेड
58	U74210WB2000PTC092359	वर्सटाइल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
59	U74210WB2003PTC096128	एस ए आर्च'एन' ड्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
60	U74210WB2004PTC097709	सुमुखा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
61	U74300WB1991PTC051038	शाह एड प्राइवेट लिमिटेड
62	U74300WB1994PTC062968	विस्तार कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U74300WB2004PTC098071	आस्था एंडवेरटाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
64	U74300WB2006PTC111034	एकोर्ड कनैक्ट प्राइवेट लिमिटेड
65	U74300WB2009PTC136488	वूमैक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
66	U74888WB1991PTC052095	सनराइस अकडेमिक प्राइवेट लिमिटेड
67	U74900WB2006PTC107898	ओरिएंटल टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड
68	U74900WB2007PTC113454	लाज़्ज फार्म प्राइवेट लिमिटेड
69	U74900WB2007PTC117233	एक्सेंट बिज़नस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
70	U74900WB2009PTC132490	सर्वानतेज़ होम सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
71	U74900WB2009PTC133024	श्याम सरोज रिटेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
72	U74900WB2009PTC133322	सुभलक्ष्मी विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
73	U74900WB2009PTC134507	ओरबीटल इंजीन्यरिंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
74	U74900WB2009PTC135180	लाइफस्पेस हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
75	U74900WB2009PTC135738	श्रीसाई कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
76	U74900WB2009PTC136298	टी ए डी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
77	U74900WB2009PTC136705	यूनीक वाइन प्राइवेट लिमिटेड
78	U74900WB2009PTC138750	माँ हँसेस्वरी इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
79	U74900WB2009PTC138774	आर एस पी बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड
80	U74900WB2009PTC138789	शाइन लाइफ डील ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
81	U74920WB2003PTC095786	टीव्रा चौकस सेक्युरिटी प्राइवेट लिमिटेड
82	U74920WB2008PTC124728	मार्शल सेक्युरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
83	U74920WB2008PTC127043	जिंग सिक्युरिटीज एंड मैनेपावर प्राइवेट लिमिटेड
84	U74920WB2009PTC134702	स्पाइरमैन गार्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
85	U74940WB1969PTC027451	दामनी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
86	U74940WB1983PTC035761	पृथीशन लिथोग्राफर्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U74950WB1990PTC050316	एस सी दास एगो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
88	U74950WB1995PTC072981	कलकत्ता पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
89	U74994WB2003PTC095623	फैशन स्टुडियो प्राइवेट लिमिटेड

प्रणय चतुर्वेदी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 5 मई 2014

संख्या/क.र./प0.बं0./एफटीई/560/2014 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 31 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्र० सं०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	2	3
1	U74900WB2010PTC145966	सूर्य नमस्कार एनर्जी सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
2	U70109WB2012PTC175094	ट्रोइका इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
3	U51909WB1993PTC058621	भृगु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U51109WB2007PTC116003	सुखधाम कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U24119WB1992PTC055308	इन्डो केमिरॉन प्राइवेट लिमिटेड
6	U74140WB1985PTC039418	ओबर इन्फॉर्म सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
7	U85195WB2011PTC167750	मिदनापुर नरसिंग होम प्राइवेट लिमिटेड
8	U74900WB2013PTC195607	देबनाथ जेवेलरी प्राइवेट लिमिटेड
9	U26931WB2011PTC164281	श्री राम ऐश प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U51909WB2011PTC160748	अमरनाथ ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
11	U70101WB2007PTC112408	प्रोनोय अबसन प्राइवेट लिमिटेड
12	U01409WB1992PTC055827	प्रग्या व्यापार प्रतिस्थान प्राइवेट लिमिटेड
13	U27310WB2008PTC124135	संगम मेटल्स एंड मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U15314WB2003PLC096091	प्राइम प्रीमियम एगो उद्योग लिमिटेड
15	U15311WB2008PTC125661	हाजरा एगो प्राइवेट लिमिटेड
16	U51909WB2012PTC182879	हैडफ़र्स्ट वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
17	U51909WB2012PTC179845	सोमया सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U51909WB2012PTC179929	सोमया ट्रेडविंग्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U51909WB2012PTC179954	सोमया विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
20	U14200WB2011PTC169270	कॉमट्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	U74140WB2010PTC149571	रियो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U85100WB2012PLC182533	सनरिन क्लब एंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड
23	U67120WB1920PLC003572	यूनिटी कंपनी लिमिटेड
24	U45400WB2011PTC168058	जोविता रियलटी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
25	U45400WB2011PTC167019	बेचार्म इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
26	U93000WB2008PTC130980	ब्लेज़ रिकवरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
27	U14200WB2011PTC160670	कॉमट्रेक रिसोर्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
28	U55101WB2005PTC106727	मैग्निफ़िक होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U51909WB1995PTC070256	डिंगो ट्रेडिंग एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
30	U70109WB1999PTC089547	रपटी रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U55101WB2013PLC192327	प्लानेटक्योर एग्रीटेक इंडिया लिमिटेड

दीप नारायण चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग—793001, दिनांक 23 अप्रैल 2014

सं. आरओसी/शि./560(3)/2014—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहाँ दिनांक से तीन महीना के बाद निम्नलिखित कम्पनीयों का नाम जब तक कारण देशीय न जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनीयों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा ।

	Company Name	CIN
1	2	3
1	सिंगाशन आग्रो प्लानटेशन प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS2012PTC011047
2	ग्लोबाल प्रोडक्ट मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2012PTC011049
3	ड्रीम डे इन्डेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74900AS2012PTC011051
4	आरएसबीआर शिवम ट्रेडर्स एन्ड रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U46209AS2012PTC011052
5	डीसांग भेली प्राइवेट लिमिटेड	U72300AS2012PTC011055
6	देउदी इन्डिया ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U63090AS2012PTC011059
7	बोहागी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70200AS2012PTC011060
8	जोनाकी भेनचरस प्राइवेट लिमिटेड	U92413A2012PTC011062
9	सालभीयो प्रोडकेस प्राइवेट लिमिटेड	U24232AS2012PTC011066
10	टीहम टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2012PTC011067
11	बाराक फूड एन्ड भीवरेजस प्राइवेट लिमिटेड	U15500AS2012PTC011068
12	पेंग्री वाइनस प्राइवेट लिमिटेड	U52208AS2012PTC011069
13	जोयश्री वाइनस प्राइवेट लिमिटेड	U52208AS2012PTC011070
14	वी लिंक इन्टलेजेन्ट सोलशंस प्राइवेट लिमिटेड	U72900AS2012PC011071
15	मून लाइट वाइनस प्राइवेट लिमिटेड	U52100As2012PTC011072
16	आरएसबीआर फरचून्ट कनसलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U74140As2012PTC01074
17	काजीरंगा होटलस प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS2012PTC011076
18	निलाखी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2012PTC011077
19	टेकलोर प्राइवेट लिमिटेड	U52100MN2012PTC008303
20	रियलसीम इन्डस्ट्री इन्डिया लिमिटेड	U45209NL2012PLC008322
21	बोहनीमान रियलटर्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS2012PTC011079
22	नर्थ इस्ट्रन इस्कील भेनचरस प्राइवेट लिमिटेड	U80903AS012PTC011080
23	पीपीएस इस्कयर टी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS2012PTC011081
24	रिभाभल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2012PTC011083
25	मानहा प्लानटेशन प्राइवेट लिमिटेड	U01403ML2012PTC008500
26	जीवन ज्योति सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U45400AS2012PTC011090
27	टीसांगपो इन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74992AS2012PTC011093
28	पाला कन्शट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड	U45400ML2012PTC008501
29	पोटेन्सल आग्री भेनचरस प्राइवेट लिमिटेड	U01119ML2012PTC008502
30	सगनदेव मारकेटींग एन्ड कन्शट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2012PTC011096
31	पाउना प्लाजा सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74146MN2012PTC008304
32	जीअल इन्फोमाट्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900AS2012PTC011106
33	एक्स2जेट टेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900AS2012PTC011107

1	2	3
34	इनडोरिया भीवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	U15540AS2012PTC011108
35	ओनेकश लोजिटीक प्राइवेट लिमिटेड	U60200AS2012PTC011109
36	की2 केपीटल प्राइवेट लिमिटेड	U65190ML2012PTC008503
37	अमितधारा इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U15209AS2012PTC011115
38	माक नेट प्राइवेट लिमिटेड	U72900AS2012PTC011116
39	पीसगा होटलस प्राइवेट लिमिटेड	U55101MN2012PTC008305
40	बूल्ड अर्थ रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2012PTC011117
41	खरसांग आगो प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U155141AS2012PTC011119
42	सूमन प्रोजेक्टस(इन्डिय) लिमिटेड	U15209AS20012PLC011121
43	पीएम इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45209AS2012PTC011122
44	माहट मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2012PTC011123
45	एनआरडीएस एन्ड मेनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U72300AS2012PTC011124
46	सीरियो यूनिफ डाटा सोरसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74300AS2012PTC011125
47	डीटटी रियल इस्टेट एन्ड माइनींग प्राइवेट लिमिटेड	U70101ML2012PTC008504
48	जेजीएस कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2012PTC011126
49	आ.बी. इनजेनेरिंग एन्ड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS2012PTC011127
50	ओके प्रोडकसनस एन्ड डीसटीबूटरस प्राइवेट लिमिटेड	U92120AS2012PTC011128
51	अनजयबी रियलीटीस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2012PTC011129
52	पान इस्ट्रेन जूट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U17125AS2012PTC011131
53	देलजीत इस्टील एन्ड एलायड प्राइवेट लिमिटेड	U36102AS2012PTC011132
54	ला ट्रेभलस टैरा प्राइवेट लिमिटेड	U63040AS2012PTC011132
55	इन्ड मेडएक्से प्राइवेट लिमिटेड	U85100AS2012PTC011144
56	माग पावरलाइन प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	U29253ML2012PTC008506

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक: 01 मई 2014

सं. 3(161)/560(5)/2014-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2168	आसेवोरक्स सल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	1240	पुछुवाई जनरल फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड
3	1801	अभिरामी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4	2123	सगे वर्क सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
5	2415	टाज इंटरनेट औटसोर्सिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

सी.एम. कार्ल मार्क्स
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कंपनी अधिनियम 1956 और मेसर्स ट्रोपिकल एयरवेस प्रैवट लिमिटेड U63040KL1991PTC006151 के बारे में

कोच्चि, दिनांक 26.04.2014

यह आप के दिनांक 28.01.2011 एस आर एन B04111597 (फार्म इइएस 2011) के आवेदन से संबंधित है

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेसर्स ट्रोपिकल एयरवेस प्रैवट लिमिटेड का नाम आज राजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनी विघटित हो गई है ।

के जी जोसफ जाक्सन
कंपनी पंजीयक, केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बैंगलूर, दिनांक 9 अप्रैल 2014

सं. ल.सी/560(5) अफटीड — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनिया विघटित हो गयी है:-

Sl. No	CIN NO.	कंपनी नाम
1	2	3
1	U72200KA2007PTC041942	हैअर्थसिस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2	U26941KA1996PTC019693	सप्तागिरी होलोब्लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U19112KA1997PTC023076	स्लोवाक इंडिया ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
4	U26999KA1982PTC004881	जीयो स्टोनवारिस प्राइवेट लिमिटेड
5	U15122KA1999PTC025705	कलिनरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U67190KA2010PTC054104	चिवुकुला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U45201KA2007FTC044711	ऐलबिट इंडिया हेल्थकेर प्राइवेट लिमिटेड
8	U65993KA2000PTC027047	डीबीएफ इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U72200KA2008PTC047351	डीसाइनिंग आउटस्टैंडिंग हैटी सोलुशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	U74130KA2006PTC040963	मेट्रो मार्केटिंग सोलुशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
11	U26103KA1999PTC026055	के.वि. डिस्पोसबल्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U45201KA2006PTC040705	सिल्वरलिने एवेर्होमिस सुइट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U73100KA2006PTC039140	वैल्यूपॉइंट हैटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
14	U25190KA1990PTC011463	महानतेश पॉलीमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U70109KA2007PTC041847	सोहम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
16	U72200KA2011PTC058404	कॉस्मोस इन्फोटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U72200KA2005PTC037400	डिसिशन स्टूडियो सॉफ्टवेर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
18	U27100KA2009PTC049610	विश्वतेज इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
19	U35914KA2006PTC040911	प्रवर्धिनी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
20	U51909KA1995PTC018493	के जे मल्टी लेटरल प्राइवेट लिमिटेड
21	U26915KA2012PTC065769	रामकृष्णप्पा पॉटरी प्राइवेट लिमिटेड
22	U72900KA2006PTC040593	नैनमोशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U24295KA2007PTC043082	इकोटेप्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
24	U70200KA2007PTC042799	निरंतरा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U74900KA2011PTC061089	जीयेपि डिजिटल सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
26	U74900KA2009PTC049152	विष्णु एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
27	U72200KA2008PTC048312	टेक्नोविसन सॉफ्टवेयर सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
28	U74140KA1991PTC012341	एम.एम. इंटीरियर फर्निशर्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U60232KA2008PTC045981	युएलहै फ्रेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
30	U72200KA2009PTC050257	पेंटांगल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
31	U85110KA1995PTC018985	सिग्नेट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U85100KA2010PTC052358	क्लिनीजोन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
33	U93020KA2008PTC047616	बोडिलीने ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
34	U51300KA2007PTC043238	अपोलो मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
35	U72200KA2000PTC027137	ब्लू कार्बन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
36	U85110KA2000PTC027268	रॉयल सैदे प्राइवेट लिमिटेड
37	U72200KA2006PTC040772	सेफशोर सॉफ्टवेयर सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
38	U74210KA2007PTC041572	क्याशमन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
39	U30007KA1999PTC025855	पसिफिक वैली कर्नाटक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
40	U70101KA2008PTC045941	डोमस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
41	U17299KA2008PTC046051	बीडब्लू क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
42	U51109KA2008PTC047630	अप्पलुएंस एडिफिस फिर्नेसिअल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
43	U74140KA2006PTC040417	पिएनवि टेक्नो ऑकुइसीशन्स प्राइवेट लिमिटेड
44	U72900KA2009PTC050283	भाविन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
45	U31909KA2005PTC036220	वर्टेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U72400KA2008PTC048493	सिमूलमेडिए सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
47	U45400KA2003PLC033047	गोल्डन होम कन्स्ट्रक्टिव्स इंडिया लिमिटेड
48	U15400KA2009PTC051748	ओरिएंट अर्गो एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
49	U72900KA2011PTC061741	हंग्री लाब्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U24232KA2011PTC057739	कसकड्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
51	U45201KA2009PTC051031	ओसियन स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
52	U74999KA2008PTC045730	गोम्मटेश्वर लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

ऐ. सेहर पोनराज

डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 10 अप्रैल 2014

सं. ल.सी/560(5) अफटीइ – कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं:-

Sl. No	CIN NO.	कंपनी नाम
1	U15135KA2008PTC047788	जेहेएम्शॉप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2	U72200KA1999PTC024760	मैनी इंफो सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
3	U72200KA2000PTC028211	रैबागी टेलीसेर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
4	U70102KA2008PTC047858	जेहैये प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U74992KA2007PTC044639	इनसिगनीया इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्विसस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
6	U24134KA2006PTC040300	विटी पॉलीमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U72200KA2010PTC053320	न्यूसाप्लिंग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
8	U72900KA2007PTC042981	ऑटोटेक एम्बेडेड सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
9	U24100KA2010PTC055957	हर्बल एलिमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	U73100KA2007PTC042427	क्षानंडा टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11	U02922KA1999PTC025256	मूर्ति स्क्रेयर प्राइवेट लिमिटेड
12	U72200KA2000PTC026611	इडब्लू सॉफ्टवेयर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
13	U72900KA2009PTC049478	एसवैएम्एम् (इंडिया) सॉफ्टवेयर सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
14	U72200KA2007PTC041684	गार्नेट इंफोसोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U51909KA2008PTC045001	है ग्रोथ एजेंसीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
16	U72200KA2008PTC046236	सीलन सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
17	U70101KA2005ULT037508	नक्षत्र डेवलपर्स बेंगलोर प्राइवेट लिमिटेड
18	U72200KA2005PTC036046	शोर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	U29253KA2012PTC065720	है-मापना सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
20	U45202KA2005PTC037840	बी.ये. टेकपार्क प्राइवेट लिमिटेड
21	U72900KA2011PTC058036	मैंडस्टॉर्म सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड

ऐ. सेहर पोन्नराज

डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 1, मई 2014

सं. ल.सी/560(5) ईईएस-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं:--

Sl. No	CIN NO.	COMPANY NAME
1	2	3
1.	U51505KA2012PTC062272	बीएलसी लाइटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2.	U15111KA1995PTC019239	ब्राइट स्नैक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	U00360KA1996PLC021068	महाराष्ट्र ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स लिमिटेड
4.	U72200KA2009PTC051670	स्टीपले टेक्नोलॉजी सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	U72200KA2006PTC041195	म्पोवेर आईटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	U72900KA2010PTC053439	रदिफिनिटी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7.	U24239KA2009PTC052010	फीटोट्रेन्ड्स हेल्थ सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
8.	U65993KA2007PTC044587	आइकॉन स्मार्ट इन्वेस्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	U72200KA2010PTC05570	रिमोट एंड मैनेजमेन्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	U67200KA2008PTC047611	ट्राइलॉजी इन्शुरन्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
11.	U45205KA2011PTC059400	ट्रान्स इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	U73100KA2008PTC047933	जॉनसन एंड विल्किंस लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
13.	U45201KA2006PLC038752	यू टी एल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

एम. आर. भट
रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नई, दिनांक 29 अप्रैल 2014 (FTE)

संख्या 14912 से 93049 तक/560(5)/एफटीई 2011—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनीयों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं ।

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	2	3
1	14912	पीएसजी असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	15622	रीफेर मेक इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	18029	डीमो लेदर अप्परेल प्राइवेट लिमिटेड
4	22245	वी.टी.के. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	22561	कुट्टालम फुड इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
6	23123	होटल ब्लू सीस प्राइवेट लिमिटेड
7	24443	ग्रीम्स फैनान्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
8	29956	नवजीवन अग्रो फुड्स लिमिटेड
9	41531	ऑरम् मरैन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	43251	अबीरामी शेर्यस & स्टाक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	44760	ब्रान्ड्स बाजार इण्डिया.काम प्राइवेट लिमिटेड
12	47312	डी बी एम एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
13	47377	ट्रीवीन फुड प्राइवेट लिमिटेड
14	51463	चेन्नई न्यू राजा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	51738	योशि इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
16	52670	एम6 मशीनेरीस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
17	54749	जेनेरल स्टार किचन प्राइवेट लिमिटेड
18	55037	कान्धीमति एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
19	55480	नेवीट टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
20	55996	प्रेम ई सिनिमास प्राइवेट लिमिटेड
21	56273	मट्रीक्सवियुव इन्टीग्रेटेड सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
22	56281	वीडुगल डुमैन प्राइवेट लिमिटेड
23	56676	एस.आर. टेक एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
24	56838	एमएससी इन्जीनियरिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
25	57028	रायल हौसिंग एण्ड हास्पिटालिटी सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
26	57108	सुमेर कम्प्यूटर्स & पेरिपेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
27	57936	लोटस मान्पावर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
28	59906	एच एण्ड टी आफ़शोर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
29	60120	पी एन एस इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
30	60658	स्टारपोल शिपिंग (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
31	61428	टेकफोजा सॉफ्टवेयर प्रैवेट लिमिटेड
32	61432	आरकेकेआर पॉवरजेन प्रैवेट लिमिटेड
33	61506	सोमयाजुलु फोरक्स प्रैवेट लिमिटेड
34	62725	पुकल ब्यो आईल इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
35	63230	अनबॉन्ड टान्टलुम प्रैवेट लिमिटेड
36	63497	कपूर ट्रेडलैन्स प्रैवेट लिमिटेड
37	64027	ईयर्त शेल्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
38	64030	अधिताक्सिया कणसल्टिंग प्रैवेट लिमिटेड
39	64375	स्टार एन्वीकॉन प्राजेक्ट्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
40	64391	मारवेल माक्टेक प्रैवेट लिमिटेड
41	64506	राजलक्ष्मी ज्वल्लेर्स प्रैवेट लिमिटेड
42	64828	ऐवैद्विया बीपिओ सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
43	65016	डीसियाटेक सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
44	65195	अस्ता 7 टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
45	65583	ऐसिगमा आईटी सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
46	65718	युनिफैव इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
47	65843	टेक्मीडिया अडवरडैसिंग (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
48	66798	डबुल हिलिक्स प्रोपरटीस प्रैवेट लिमिटेड
49	66921	करुर बस बाडी बिल्डेर्स क्लेस्टेर्स प्रैवेट लिमिटेड
50	67025	लिटटील ग्रीन फ्राग कम्युनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
51	68203	रोस फेशन्स & डिजैन्स लिमिटेड
52	68586	हेल्डी टेलीकॉम प्रैवेट लिमिटेड
53	68760	ईस्ट वेस्ट टेक्नोलॉगि कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
54	69556	स्लोका कबिडेल अठवैसरी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
55	69678	जेबिन टेक सॉफ्टवेयर प्रैवेट लिमिटेड
56	69746	देवराज विन्ड फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
57	69964	स्कैलिम मैन्टेनंस सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
58	71640	श्री राजगुरु इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
59	71698	टीएसवीपी ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड
60	71758	तिरु एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड
61	71828	संकेशवर ट्रेडकॉम प्रैवेट लिमिटेड
62	72032	रूपल शेर ब्रोकिंग सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
63	72511	अर्था नेटवर्क सरवीसेस लिमिटेड
64	72613	विन्स्टन जोसेफ इन्फरमेशन टेक्नोलाजी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
65	73722	बिलेस रेस्टोरेंट्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
66	73904	कास्सेल एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
67	74093	धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मैन्स एण्ड मिनरेल्स प्रैवेट लिमिटेड
68	74327	बिसिनेस आक्सिलरेटर एनएसएम इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
69	74622	एमसीपी इन्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स प्रैवेट लिमिटेड
70	75116	साम्भव एनर्जी (एमपी) प्रैवेट लिमिटेड
71	75261	धनलक्ष्मी श्रीनिवासन सोलार एनरजी प्रैवेट लिमिटेड
72	75360	ग्रास्मान वेब सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
73	75361	बालाजी फेडीलिटी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
74	75633	प्रिनिटी टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
75	76008	गुडूर तेरमल लिमिटेड
76	76461	वुड्लान्ड्स टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
77	77123	होसियन हॉक्सिजेन प्रैवेट लिमिटेड
78	77362	विल्वीन ईलेर्न प्रैवेट लिमिटेड
79	77553	स्कैविव्यु ईयर्त रिसोर्सस प्रैवेट लिमिटेड
80	77554	फौना लान्ड रिसोर्सस प्रैवेट लिमिटेड

1	2	3
81	77557	सउतस्टार हैलान्ड रिसोरसेस प्रैवेट लिमिटेड
82	77559	बान्टम प्रापरटी रिसोरसेस प्रैवेट लिमिटेड
83	77565	टार्क्यास प्रापरटी रिसोरसेस प्रैवेट लिमिटेड
84	77580	कबिनी लान्ड रिसोरसेस प्रैवेट लिमिटेड
85	77601	सउतस्टार ईयर्त रिसोरसेस प्रैवेट लिमिटेड
86	77605	बान्टम ईयर्त रिसोरसेस प्रैवेट लिमिटेड
87	77606	गोदावरी ईयर्त रिसोरसेस प्रैवेट लिमिटेड
88	77615	पल्लवन हैलान्ड रिसोरसेस प्रैवेट लिमिटेड
89	77894	कारडिनल्स लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
90	77895	स्वॉन लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
91	77896	कुरिन्ची लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
92	77899	टार्क्यास लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
93	77900	कामेल लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
94	77901	डुब्लिन लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
95	77911	डौफलेवर लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
96	77913	सबरी लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
97	77915	नैट्टिंगेल लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
98	77916	वैगै लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
99	77918	थामरै लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
100	77919	माट्सिया लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
101	77926	प्रिस्टैन लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
102	77927	पेटुनिया लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
103	77928	मेट्टूर लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
104	77929	फ्लोरिडा लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
105	77953	द्रिवेणी लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
106	77955	द्रिसी लान्ड डेवलेप्मेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
107	78094	सिफि एम्पॉवर इण्डिया फौंडेशन प्रैवेट लिमिटेड
108	81337	टुकाना टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
109	83245	युनिक्यू मल्टी-इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
110	83454	मोग एनर्जी प्रैवेट लिमिटेड
111	83686	टेक्नोचाय आन्लैन सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
112	83755	इण्डियन मरेन अग्रीकल्चर प्रैवेट लिमिटेड
113	83897	धनलक्ष्मी श्रीनीवासन नेटवर्क प्रैवेट लिमिटेड
114	84275	देव विन्ड एनर्जी प्रैवेट लिमिटेड
115	85265	अलैड सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
116	85296	फेदरलैट् कान्ट्राक्टींग & कणस्ट्रक्शन प्रैवेट लिमिटेड
117	86178	सिवी एनर्जीस प्रैवेट लिमिटेड
118	86577	जेवीएस हल्ट्रा टेक इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
119	86855	ग्रीनोवेशन इको वेंचेर्स प्रैवेट लिमिटेड
120	86857	फेलक्सीग्रेड मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
121	88407	रासी लाजिस्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड
122	88601	अडोर ग्लोपल प्रैवेट लिमिटेड
123	89220	श्रीराम इन्सुरेन्स ब्रोकिंग कम्पनी लिमिटेड
124	90581	पलनी मुरुगन स्टील्स प्रैवेट लिमिटेड
125	90950	पिक्सर इन्फ्राकॉन लिमिटेड
126	93049	अरमान्जा टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड

एस. मीनाक्षी
उप कम्पनी पन्जीयक
तमिलनाडु

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 5th March 2014

No. F.20/2014/SCA(1)--Shri Pratap Singh, Assistant Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of February 28, 2014 on his attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Dy. Registrar (Admn.I)

The 8th March 2014

No. F.20/2014-SCA(I)--Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote Ms. Neelam Arora, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) as Assistant Registrar (Non-Shorthand) with effect from the forenoon of 7.3.2014.

BADR-UL-ISLAM
Dy. Registrar (Admn.I)

The 11th April 2014

No.F.20/2014-SCA(I)--Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote the following officers/officials to the post and with effect from the dates mentioned against their names:-

S.No.	Name & Designation	Post to which promoted & Date
1.	Mr. S.Sivaramakrishna, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Assistant Registrar (Non-Shorthand) on <i>trial</i> and <i>ad hoc</i> basis w.e.f. 13.3.2014 (A/N)
2.	Mrs. Jaswinder Kaur Bhatti, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
3.	Mrs. Asha Kiran Bhardwaj, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
4.	Mrs. Suman Jain, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
5.	Mrs. Raj Rani Negi, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
6.	Mrs. Alka Rani, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
7.	Mrs. Mala Kumari Sharma, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.15.3.2014 (F/N)
8.	Ms. Rita Ahuja, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)

S.No.	Name & Designation	Post to which promoted & Date
9.	Mrs. Indira Manuja, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
10.	Mr. Sandeep Bhatnagar, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on <i>ad hoc</i> basis w.e.f.15.3.2014 (F/N)
11.	Mr. Rakesh Kumar Sharma, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
12.	Mrs. Asha Soni, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
13.	Mr. Shakti Prakash Sharma, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
14.	Mr. Govind Ballabh, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
15.	Mr. Syed Fazal Ahmed, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.15.3.2014 (F/N)
16.	Mrs. Anita Bhatia, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
17.	Mr. Vinod Kumar Kaushik, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
18.	Mr. Sunil Kumar Jain, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
19.	Mr. Pancham Singh Rawat, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on <i>ad hoc</i> basis w.e.f.14.3.2014 (F/N)
20.	Mrs. Uma Malhotra, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
21.	Mr. Hari Swaroop Parashar, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
22.	Mrs. Rashmi Uppal, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
23.	Mrs. Geeta Satija, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)

S.No.	Name & Designation	Post to which promoted & Date
24.	Mr. Tara Dutt Pant, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
25.	Mr. Pardeep Kumar, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
26.	Mr. Hareesh Singh Negi, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
27.	Mr. Tapan Kumar Chakraborty, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
28.	Mrs. Ritu Sharma, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
29.	Mrs. R.Saraswati, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)
30.	Mrs. Madhu Bala Seth, Senior Court Assistant/Editor of Paper Books/Court Associate	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f.14.3.2014 (F/N)

BADR-UL-ISLAM
Dy. Registrar (Admn.I)

No. F. 20/2014-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint S/Shri Manav Sharma and Deepak Guglani, Senior Personal Assistants as Court Master (Shorthand) with effect from the afternoon of 31.03.2014.

BADR-UL-ISLAM
Dy. Registrar (Admn.I)

New Delhi, the 11th April 2014

No. F. 20/2014-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri V.S.R. Avadhani, District & Sessions Judge and the Director, Andhra Pradesh Judicial Academy as Registrar, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of 2nd April, 2014.

M.K. HANJURA
Registrar (Admn. I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY)

Hyderabad-500 052, the 28th April 2014

No.15011/5/2014-Estt--On the recommendation of the Union Public Service Commission vide their letter No.3/24(40)/2013-ADT-3 dated 04.03.2014 Shri Manish Kumar Sharma, Assistant Commandant/Exe, CISF (No.033210049) is appointed as Chief Drill Instructor in the SVP National Police Academy, Hyderabad in the Pay Band-3, Rs.15,600--39,100/- + Grade Pay of Rs.5,400/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier w.e.f. the forenoon of 21st April, 2014 on usual terms and conditions of deputation.

2. He will have the option either to draw the pay in his parent scale of pay or the pay in the scale of pay of the deputation post in the Academy i.e. PB-3 Rs.15,600--39,100/- + Grade Pay of Rs.5,400/- plus allowances as admissible under the relevant rules. The option has to be exercised within one month of his joining the post and the option once exercised shall be final and binding.

ARUNA M. BAHUGUNA
Director

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-03, the 4th April 2014

No. O.II-3671/2014-Pers-DA-I--The Govt. of India have appointed Shri Sanjay A. Lathkar, IPS (JH : 95) as Deputy Inspector General (DIG) in CRPF on deputation basis in the Pay Band-4 (Rs. 37,400--67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,900/- for a period of 05 years from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Deputy Inspector General, CRPF on the afternoon of 03.04.2014.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 22nd April 2014

No. O.II.6097/2014-DA-4-Pers--Regret to notify that Shri Inderjit Singh, Deputy Commandant (IRLA-6097) of 153 Bn, CRPF has sacrificed his life on 07/04/2014 in IED blast at Baranda Mode, PS-Dhibra, Distt- Aurangabad, Bihar while conducting operation(SADO). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 07.04.2014(AN).

M.C. PANWAR
DIG(Pers) Dte

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL) AHMEDABAD BRANCH OFFICE RAJASTHAN

Jaipur, the 2nd May 2014

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/124/2014-15--The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government Service from the date shown against his name :--

1. Shri Ram Pratap Khatkar, Retired on superannuation w.e.f. 30.04.2014 (AN)
Senior Audit Officer

Sd/-ILLEGIBLE
Dy. Director

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), GUJARAT

Ahmedabad, the 1st May 2014

No. WMI/47(3)/Vol-I/OW No. 26--The Accountant General (A&E), Gujarat is pleased to promote following DAO-I official as Sr. Divisional Accounts Officer, Gr.'B' (Gazetted) and DAO-II official as DAO-I Gr.'B' (Gazetted) in revised pay scale PB-III 15600-39100 + GP 5400 and PB-II 9300-34800 + GP 4800 respectively w.e.f. the dates shown against their names :--

Promoted as Sr DAO.

1. Shri R.N.Raghuvanshi 04-02-2014

Promoted as DAO-I.

1. Shri Rajesh Kumar Gupta 04-02-2014

Sd/-ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn&WM-I)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

Delhi Cantt-110010, the 24th April 2014

No.AN-I/1172/SAG/2013-14--President is pleased to appoint the undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, to the Senior Administrative Grade (Scale of Pay of Rs. 37,400-67,000 + Grade Pay Rs. 10,000) of that Service, with effect from the dates indicated against their names and until further orders:-

Sl No.	Name of the officer	Date from which appointed to the Senior Administrative Grade
1	Shri A.K. Jena	17/02/2014
2	Shri Bir Singh Negi	14/02/2014
3	Shri A.M. Khalkho	11/02/2014
4	Shri Harsh Vaidya	11/02/2014
5	Shri Pramod Kumar	17/02/2014

AMBARISH BARMAN
Sr.ACGDA (Admin)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

(LABOUR BUREAU)

Shimla-171 004, the 30th April 2014

No. 5/1/2014-C.P.I.----The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001=100 increased by 1 point and stood at 239 (two hundred thirty nine) for the month of March, 2014.

S. S. NEGI
Director

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai – 400 001, the 1st April 2014

No.1/6(4)/2010-Power/4219----The President is pleased to appoint the following Scientific Officer / Engineer of this Department who are on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade as mentioned against each and as detailed below in an officiating capacity w.e.f. 01.07.2012, until further orders.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Present Grade	Promoted to Grade	Pay Band (Rs/)	Grade Pay (Rs.)	Unit
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rajendra Pal	Scientific Officer/ Engineer-D	Scientific Officer/ Engineer-E	PB-3 15600-39100	7600	RAPS- 5&6

1	2	3	4	5	6	7
2.	Raj Kumar Bhardwaj	Scientific Officer/ Engineer-D	Scientific Officer/ Engineer-E	PB-3 15600-39100	7600	RAPS- 7&8
3.	Rakesh Kumar Jain	Scientific Officer/ Engineer-D	Scientific Officer/ Engineer-E	PB-3 15600-39100	7600	RAPS- 7&8
4.	A.P. Purnaye	Scientific Officer/ Engineer-D	Scientific Officer/ Engineer-E	PB-3 15600-39100	7600	TAPS- 1&2
5.	Rajput M.L.	Scientific Officer/ Engineer-D	Scientific Officer/ Engineer-E	PB-3 15600-39100	7600	NPCIL HQ

2. The above officers relinquished charge of the lower post held by them w.e.f. 01.07.2012 (FN).

A. SUKUMARAN
Under Secy.

No. 1/6(4)/2010-Power/4238----The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of this Department who are on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade as mentioned against each and as detailed below in an officiating capacity w.e.f. 01.07.2013, until further orders.

Sr. No	Name (S/Shri)	Present Grade	Promoted to Grade	Pay band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)	Unit
1.	A.K. Singh	SO/H+	Outstanding Scientist	HAG Scale Rs. 67,000--(annual increment @3%--) Rs. 79,000/-	--	TAPS 1& 2
2.	B.B. Kapoor	SO/E	SO/F	37400-67000	8700	RAPS 5 & 6
3.	Manvir Singh	SO/E	SO/F	37400-67000	8700	NAPS

2. The above officers at Sr.no. 1 had relinquished charge w.e.f. 25.11.2013 (FN) and the officers at Sr.No. 2 & 3 have relinquished charge w.e.f. 01.07.2013 (FN) of the lower post held by them.

A. SUKUMARAN
Under Secy.

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai--400 094, the 22nd April 2014

AERB/Adm/I/94/2013/1323----Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Smt. Mallika C. Nair, Private Secretary (Non Secretariat) to the post of Senior Private Secretary (Pay Band PB-2 Rs.9300 - 34800 + Grade Pay Rs.4800) in the Atomic Energy Regulatory Board on regular basis with effect from the forenoon of November 25, 2013 until further orders.

P. MOHAN BABU
Chief Administrative Officer

AERB/Adm/I/94/2013/1324--Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Shri P. Narayanan, Private Secretary (Non Secretariat) to the post of Senior Private Secretary (Pay Band PB-2 Rs.9300 - 34800 + Grade Pay Rs.4800) in the Atomic Energy Regulatory Board on regular basis with effect from the forenoon of December 3, 2013 until further orders.

P. MOHAN BABU
Chief Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 11th April 2014

No. AMD-16/1/1995-Rectt/Vol.IV/529--Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri Vinod Kumar C.K. Assistant, (PB-2, Rs. 9,300--34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/-), DAE, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer (PB-2, Rs. 9,300--34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/-), in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Jaipur with effect from the forenoon of 24.03.2014 until further orders.

A.S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

The 15th April 2014

No. AMD-4/3/2013-Rectt./486--The President is pleased to appoint the under mentioned individual as SCIENTIFIC OFFICER-C in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, in a temporary capacity in the Pay Band-3 Rs.15,600--39,100/- + Rs. 5,400/- Grade pay with effect from the date mentioned below until further orders:

Sl. No.	Name	Date of Assumption of Charge
01.	Shri Arghya Mandal	01-08-2013 (F.N.)

A.S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 29th April 2014

No. NFC/PAR-I/03/03/672--The President is pleased to appoint Shri Ambati Anil Karunakar, as Technical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 02.12.2013 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/673--The President is pleased to appoint Shri M Manthira Moorthy, as Technical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in Zirconium Complex, Pazhayakayal (a unit of NFC, Hyderabad) in temporary capacity with effect from the forenoon of 12.12.2013 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/674--The President is pleased to appoint Shri Vineet Sharma, as Technical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs. 15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 23.12.2013 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

No. NFC/PAR-I/03/03/675--The President is pleased to appoint Shri Babu V S, as Technical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs.15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in temporary capacity with effect from the forenoon of 07.01.2014 until further orders.

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s GV AGRO CHEM PRIVATE LIMITED

New Delhi-110019, the 24th March 2014

No. 560(3) MCA/ROC-Delhi/sec 560/2014/00127/13038--Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. GV AGRO CHEM PRIVATE LIMITED unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chandigarh, the 30th April 2014

No. ROC/560(5) FTE/2013--Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of following Companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

S.No.	Company No	Name of the Company
1	31497	Shri Krishna Education & Immigration Consultants Pvt. Ltd
2.	35760	JKR Pumps Private Limited
3.	33652	B B Alloys Private Limited
4.	34196	Gulliver Overseas Limited
5.	21682	Euromatic Textiles Limited
6.	32489	Punjab Education Services Private Limited
7.	32748	Block Rock Developers & Promoters Private Limited
8.	35655	Safe Money Marketing Private Limited
9.	30774	Uniroyal Builders & Promoters Private Limited
10.	33443	APS Innovative Creations Private Limited
11.	34881	Poshe Creations Private Limited
12.	10658	Nivia Aesthetics Private Limited
13.	09890	Shree Ram Silicates Private Limited

S.No.	Company No	Name of the Company
14.	30598	Akal Kirpa Auto Solutions Private Limited
15.	17750	Castle Films Limited
16.	31491	Euro Veritas Quality Assurance Private Limited
17.	34664	Yashraj Petro Private Limited
18.	30573	Bric Real Estate India Private Limited
19.	31417	Skyscape Education & Immigration Consultancy Pvt.Ltd
20.	34470	Sri Vinayak Concepts Private Limited
21.	33515	Solarium Power Private Limited
22.	34255	Impeccable Hospitality Private Limited
23.	34358	OS Technologies Private Limited
24.	35326	Acme Tubes & Profiles Private Limited
25.	31992	Skystar Telecom Private Limited
26.	19590	Raghav Keshav Foods Private Limited
27.	34562	GB Medicare Private Limited
28.	31426	AVP Motor Works Private Limited
29.	36728	Futureway India Enterprises Private Limited
30.	07354	ETC Computer Moulds And Dies Private Limited
31.	31360	Pacific Immigration And Career Development Services Pvt. Ltd
32.	33893	Global Student Athletes & Academics Private Limited
33.	29823	Amar Auto Components Private Limited
34.	33021	Visa Expert Private Limited
35.	37186	Disha Films & Music Private Limited
36.	31710	Tarrakki.com Education Technology Services Pvt. Ltd
37.	26473	Way to West Immigration Services Private Limited
38.	36236	Punjab Fresh & Processed Foods Private Limited
39.	33394	Sai Shivalik Land Promoters & Development Private Limited
40.	32871	Milestone Info Soft Private Limited
41.	32616	Sharan Agro Impex Private Limited
42.	32508	Footloose Exports Private Limited
43.	32108	Family Assure Insurance Services Private Limited
44.	15848	AKV Capital And Finance Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of Companies Act 1956 and of the following Companies

Gwalior-474009, the 5th March 2014

No. ROC-GC/U.s.560(5)/2013/9630—Notice is hereby given pursuant of Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck-off Register and the said companies are dissolved :--

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
1	U05131MP2005PTC017657	PROJUST FASHIONS PRIVATE LIMITED
2	U52393MP2004PTC016570	JHAVAR DIAMONDS AND JEWELLERY PRIVATE LIMITED
3	U74140MP2007PTC019599	INCAN SERVICES PRIVATE LIMITED
4	U25202MP2007PTC019726	PARTH POLYPACK PRIVATE LIMITED
5	U67110MP2003PTC015998	EASY FINANCIAL AND MARKETING CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
6	U24232MP2012PTC028134	MALADIES PHARMACEUTICALS (I) PRIVATE LIMITED
7	U92400MP2010PTC023552	SAMANWAY ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
8	U45201MP2010PTC024389	DIVINE CIVICON PRIVATE LIMITED
9	U40100MP2009PLC022082	AMPLE POWER LIMITED
10	U40100MP2010PTC023553	DAKSH ENERGY PRIVATE LIMITED
11	U40109MP2008PTC021120	DB POWER (JHARKHAND) PRIVATE LIMITED
12	U40100MP2010PTC023555	DOLBY POWER & ENERGY PRIVATE LIMITED
13	U45200MP2009PTC022423	DRONA INFRAMINE AND POWER PRIVATE LIMITED
14	U40100MP2010PTC023556	VINDHYA POWER PRIVATE LIMITED
15	U74140MP2010PTC023486	NUVIZ TELECOM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
16	U36100MP2010PTC023945	TAHA PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
17	U92112MP1994PTC008043	SHIVA LOOM AND TEXTILE MACHINERY PRIVATE LIMITED
18	U45200MP2010PTC023367	SSBS ENGINEERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
19	U60230MP2012PTC028087	SHRI KALYANIKA CARGOTERMINALS PRIVATE LIMITED
20	U51505MP2008PTC020836	CHAMUNDA IRON AND STEEL PRIVATE LIMITED
21	U51502MP2008PTC020837	SIDDHI IRON AND STEEL PRIVATE LIMITED
22	U51502MP2008PTC020840	GROWMORE STEEL PRIVATE LIMITED
23	U07010MP2006PTC018516	MALINATH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
24	U45201MP2007PTC020039	SODHIYA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
25	U70100MP2009PLC021529	ROYAL SUN REAL ESTATE AND ALLIED SERVICES (INDIA) LIMITED
26	U18101MP2007PTC019408	TOUCH UP BUSINESS (INDIA) PRIVATE LIMITED

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
27	U52590MP2010PTC023851	CONVOY MULTITRADES PRIVATE LIMITED
28	U24233MP2008PTC020456	SOHAMSHREE BUSINESS PRIVATE LIMITED
29	U52510MP2010PTC023784	CONVOY TEleshOPING PRIVATE LIMITED
30	U52590MP2010PTC024456	GIC NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
31	U72200MP2007PTC020144	AKSHUN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
32	U72200MP2009PLC022215	SAM INFO INDIA LIMITED
33	U45201MP2001PTC014664	DEV HOMES PRIVATE LIMITED
34	U24232MP2001PTC014579	SUPREX BIOTECH PRIVATE LIMITED
35	U24222MP1975PTC001318	SYNPRO SURFACE COATINGS PVT LTD
36	U65929MP1994PLC008221	DESIGN FINANCE LTD.
37	U72200MP2010PTC023682	SEVENSAND SOFTWARE PRIVATE LIMITED
38	U05110MP2004PTC016323	MERCANTILE EXIM AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
39	U72200MP2011PTC025850	YUVRAJ WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
40	U72200MP2010PTC023618	DUCIS INFOTECH PRIVATE LIMITED
41	U74900MP2013PTC030406	AADHVIK MEDIA & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
42	U67120MP2008PTC020927	SINECURE INVESTMENT PRIVATE LIMITED
43	U40109MP2009PTC021575	ATRIYA ENERGY PRIVATE LIMITED
44	U40109MP2009PTC021576	REHWA ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
45	U24240MP2009PTC021522	GWALIOR CHEMICAL PRIVATE LIMITED
46	U72200MP2008PTC020721	CARVATION SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
47	U70100MP2010PTC024025	ALBA LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
48	U67190MP2009PTC021767	GS INVESTMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
49	U45200MP2010PTC024944	MAA JANKI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
50	U67120MP2011PTC025981	FACT FINDER STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED
51	U67120MP2007PTC019365	KANSAS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
52	U14290MP2009PTC022417	PLANET EXPLORATIONS PRIVATE LIMITED
53	U33112MP2001PTC014860	MICRO-FINISH MEDICAL AND PLAY EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
54	U72200MP2013PTC030491	STEPTRONIX INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
55	U51395MP2010PTC023657	PARAMOUNT CONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED
56	U72200MP2008PTC020395	RICHHARIYA INFOSYSTEM PRIVATE LIMITED

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
57	U67190MP2009PTC022186	STAR ONE INSURED LIFE SERVICE PRIVATE LIMITED
58	U70100MP2011PTC025549	JEMS BUILDTECH PRIVATE LIMITED
59	U05110MP2004PTC016625	AAYULIFE NETWORK PRIVATE LIMITED
60	U45201MP2002PTC015286	ANSHUMAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
61	U31100MP2009PTC022719	OZONE TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED
62	U67120MP2008PTC020959	TREASURE SHARES AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED
63	U67120MP1999PTC013846	RAMCHANDRA BADRINARAYAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
64	U67120MP2000PTC014472	ADITYA SECURITIES (RATLAM) PRIVATE LIMITED
65	U01513MP2005PTC018081	RANI FOOD PACKAGING PRIVATE LIMITED
66	U15543MP1995PTC010305	SHRIYAN FOOD PRODUCTS PVT LTD
67	U24233MP2011PLC026560	SMILE LIFE HERBAL'S INDIA LIMITED
68	U31200MP2000PLC014415	AVN WINFOTECH LIMITED
69	U31300MP2010PTC022901	FLEMAX CONDUITS PRIVATE LIMITED
70	U01407MP2012PTC029440	JITME AGROVET PRIVATE LIMITED

MUKESH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Madhya Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 2nd May 2014

No.ROC/WB/SM/560/2014--Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 89 Companies have on this day been struck off the Register and the Companies are dissolved :-

SL NO.	CIN	Name of the Company
1	U72900WB2005PTC104967	ASAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	U72900WB2005PTC106354	OXI ZEN SOFTECH PRIVATE LIMITED
3	U72900WB2008PTC124440	AARADHYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	U72900WB2008PTC126434	SUPERSONIC COMPUTRADE PRIVATE LIMITED
5	U72900WB2008PTC127006	PLATOON ANIMATION PRIVATE LIMITED
6	U72900WB2008PTC129107	PULSARWAVE MEDIA PRIVATE LIMITED
7	U72900WB2008PTC130442	IKSEN INDIA PRIVATE LIMITED

SL NO.	CIN	Name of the Company
8	U72900WB2009PTC134653	NAAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
9	U72900WB2009PTC135146	INFORMIV INFO TECH PRIVATE LIMITED
10	U72900WB2009PTC136201	TURNING POINT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
11	U74120WB2008PTC121886	WONDERFUL FINANCIAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
12	U74120WB2008PTC121915	BHOLEBABA FINANCIAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
13	U74120WB2008PTC121916	DIAMONA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
14	U74120WB2008PTC124384	FUNDZONE CONSULTANTS AND ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
15	U74120WB2008PTC125642	KHEMI MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
16	U74120WB2008PTC125649	SANTOKHI MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
17	U74120WB2008PTC125653	CHAMUNDA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
18	U74120WB2008PTC125657	CHINTPURNI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
19	U74120WB2008PTC125658	BAJRESWARI ADVISORY PRIVATE LIMITED
20	U74120WB2008PTC125673	KHEMI ADVISORY PRIVATE LIMITED
21	U74120WB2008PTC125674	RANISATI INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED
22	U74120WB2008PTC125675	RANISATI FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED
23	U74120WB2008PTC126110	NARAYANI INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
24	U74120WB2008PTC126111	CHAMUNDA FINANCIAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
25	U74120WB2008PTC126267	JWALA ADVISORY PRIVATE LIMITED
26	U74120WB2008PTC126331	CHAMUNDA INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
27	U74120WB2009PTC135678	REAL FRIENDS PLACEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
28	U74140WB1982PTC035229	ROBERTS MCLEAN CONSULTANTS PVT LTD
29	U74140WB1986PTC040654	BINANI CONSULTANTS PVT LTD
30	U74140WB1987PTC042540	KUBER CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
31	U74140WB1989PTC048038	MAXCON MANAGEMENT SERVICES PVT LTD
32	U74140WB1992PTC056142	DPR CONSULTANTS PVT LTD
33	U74140WB1993PTC060681	MILLENNIUM RESOURCES PVT. LTD
34	U74140WB1994PTC065918	CENTURY ESCON PVT.LTD
35	U74140WB2004PTC099215	VNV ADVISORS PRIVATE LIMITED
36	U74140WB2005PTC105399	CORNUCOPZA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
37	U74140WB2005PTC105717	DEB ENGINEERING SURVEY ADVISORY PRIVATE LIMITED

SL NO.	CIN	Name of the Company
38	U74140WB2005PTC106214	ASSURANCE INFO-MANAGEMENT PVT LTD
39	U74140WB2006PTC108420	MILTON GOODS PVT LTD
40	U74140WB2006PTC108985	BIYALA MANAGEMENT PVT LTD
41	U74140WB2006PTC110818	PANCHDEV CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
42	U74140WB2007PTC114045	MYSTIC INSPIRATION PRIVATE LIMITED
43	U74140WB2007PTC118229	SAAJAN SAJANI MATRIMONY.COM PRIVATE LIMITED
44	U74140WB2007PTC118625	DREAM WEB CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
45	U74140WB2008PTC126179	T. SENGUPTA & CO. CONSULTING PRIVATE LIMITED
46	U74140WB2008PTC126532	VINAYAK FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED
47	U74140WB2008PTC127101	EMACCT CONSULTING PRIVATE LIMITED
48	U74140WB2008PTC127168	NEED LIFE CARE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
49	U74140WB2008PTC127652	MULTI ASSURANCE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
50	U74140WB2008PTC130693	M S MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED
51	U74140WB2009PTC133710	INNOVATIVE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSULTANTS PVT. LTD.
52	U74140WB2009PTC136272	PURUSATTAM CONSULTANCY & MARKETING PVT. LTD.
53	U74140WB2009PTC137765	BAGCHI CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
54	U74140WB2009PTC138915	ASA FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
55	U74140WB2009PTC140222	MANOEUVRE MULTI-SERVICES PRIVATE LIMITED
56	U74140WB2009PTC140411	WINGATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
57	U74200WB2008PTC131311	PRECISION HANDICRAFTS & INTERIORS PRIVATE LIMITED
58	U74210WB2000PTC092359	VERSATILE CONSULTING PRIVATE LIMITED
59	U74210WB2003PTC096128	SA ARCH'N' DRAFT PRIVATE LIMITED
60	U74210WB2004PTC097709	SUMUKHAA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
61	U74300WB1991PTC051038	SHAH AD PVT LTD
62	U74300WB1994PTC062968	VISTAAR COMMUNICATIONS PVT. LTD
63	U74300WB2004PTC098071	AASTHA ADVERTISING INDIA PRIVATE LIMITED
64	U74300WB2006PTC111034	ACCORD CONNECT PRIVATE LIMITED
65	U74300WB2009PTC136488	VUMAX MEDIA PRIVATE LIMITED
66	U74888WB1991PTC052095	SUNRISE ACADEMIC PVT LTD
67	U74900WB2006PTC107898	ORIENTAL TIE-UP PRIVATE LIMITED

SL NO.	CIN	Name of the Company
68	U74900WB2007PTC113454	LAZZ PHARMA PRIVATE LIMITED
69	U74900WB2007PTC117233	ASCENT BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
70	U74900WB2009PTC132490	SERVAANTAGE HOME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
71	U74900WB2009PTC133024	SHYAM SAROJ RETAILS (INDIA) PRIVATE LIMITED
72	U74900WB2009PTC133322	SUBHLAKSHMI VINIMAY PRIVATE LIMITED
73	U74900WB2009PTC134507	ORBITAL ENGINEERING MARKETING PRIVATE LIMITED
74	U74900WB2009PTC135180	LIFESPACE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
75	U74900WB2009PTC135738	SHRISAI COMMODITIES PRIVATE LIMITED
76	U74900WB2009PTC136298	TAD MARKETING PRIVATE LIMITED
77	U74900WB2009PTC136705	UNIQUE WINE PRIVATE LIMITED
78	U74900WB2009PTC138750	MAA HANSESWARI ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
79	U74900WB2009PTC138774	RSP BUSINESS PRIVATE LIMITED
80	U74900WB2009PTC138789	SHINE LIFE DEAL TRADE PRIVATE LIMITED
81	U74920WB2003PTC095786	TEEVRA CHAUKAS SECURITY PRIVATE LIMITED
82	U74920WB2008PTC124728	MARSHALL SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
83	U74920WB2008PTC127043	ZING SECURITIES & MANPOWER PRIVATE LIMITED
84	U74920WB2009PTC134702	SPIDERMAN GUARD SERVICES PRIVATE LIMITED
85	U74940WB1969PTC027451	DAMANI PICTURES PVT LTD
86	U74940WB1983PTC035761	PRECISION LITHOGRAPHERS PVT LTD
87	U74950WB1990PTC050316	S C DAS AGRO INDUSTRIES PVT LTD
88	U74950WB1995PTC072981	CALCUTTA PACKAGING PVT LTD
89	U74994WB2003PTC095623	FASHION STUDIO PRIVATE LIMITED

PRANAY CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 5th May 2014

No.ROC/WB/FTE/560/2014--Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 31 Companies have on this day been struck off the Register and the Companies are dissolved :--

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U74900WB2010PTC145966	SURYA NAMASKAR ENERGY SOLUTIONS PVT. LTD.
2	U70109WB2012PTC175094	TROIKA INFRABUILD PRIVATE LIMITED
3	U51909WB1993PTC058621	BHRIGU EXPORTS PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	Name of the Company
4	U51109WB2007PTC116003	SUKHDHAM COMMERCE PRIVATE LIMITED
5	U24119WB1992PTC055308	INDO CHEMIRON PVT. LTD.
6	U74140WB1985PTC039418	OBER INFORM SYSTEMS PVT. LTD.
7	U85195WB2011PTC167750	MIDNAPORE NURSING HOME PRIVATE LIMITED
8	U74900WB2013PTC195607	DEBNATH JEWELLERY PRIVATE LIMITED
9	U26931WB2011PTC164281	SHREE RAM ASH PRODUCTS PRIVATE LIMITED
10	U51909WB2011PTC160748	AMARNATH TRADELINK PRIVATE LIMITED
11	U70101WB2007PTC112408	PRONoy ABASAN PRIVATE LIMITED
12	U01409WB1992PTC055827	PRAGYA VYAPAR PRATISTHAN PVT. LTD.
13	U27310WB2008PTC124135	SANGAM METALS & MINERALS PRIVATE LIMITED
14	U15314WB2003PLC096091	PRIME PREMIUM AGRO UDYOG LIMITED
15	U15311WB2008PTC125661	HAZRA AGRO PRIVATE LIMITED
16	U51909WB2012PTC182879	HEADFIRST VANIJYA PRIVATE LIMITED
17	U51909WB2012PTC179845	SOMYAA SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
18	U51909WB2012PTC179929	SOMYAA TRADEWINGS PRIVATE LIMITED
19	U51909WB2012PTC179954	SOMYAA VINIMAY PRIVATE LIMITED
20	U14200WB2011PTC169270	COMTRACK INDIA PRIVATE LIMITED
21	U74140WB2010PTC149571	RIO PROPERTY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
22	U85100WB2012PLC182533	SANARIN CLUB & HOSPITALITY LIMITED
23	U67120WB1920PLC003572	UNITY COMPANY LIMITED
24	U45400WB2011PTC168058	JOVITA REALTY ESTATE PRIVATE LIMITED
25	U45400WB2011PTC167019	BECHARM ESTATE PRIVATE LIMITED
26	U93000WB2008PTC130980	BLAZE RECOVERY SERVICES PRIVATE LIMITED
27	U14200WB2011PTC160670	COMTRACK RESOURCES INDIA PRIVATE LIMITED
28	U55101WB2005PTC106727	MAGNIC HOTELS PVT. LTD.
29	U51909WB1995PTC070256	DINGO TRADING & SERVICES PVT.LTD.
30	U70109WB1999PTC089547	RAPTI RESORTS PRIVATE LIMITED
31	U55101WB2013PLC192327	PLANETCURE AGRITECH INDIA LIMITED

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Shillong-793001, the 23rd April 2014

No. ROC/SH/560(3)/2014--Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that after expiry of 3 (three) months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register of Companies in accordance with and subject to the provisions of Sub-section (5) of 560 of the said Act :--

Sr No.	Name	CIN
1	SINGHASON AGRO PLANTATION PRIVATE LIMITED	U01132AS2012PTC011047
2	GLOBAL PRODUCT MARKETING PRIVATE LIMITED	U51909AS2012PTC011049
3	DREAM DAY EVENT PRIVATE LIMITED	U74900AS2012PTC011051
4	RSBR SHIVAM TRADERS & REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U45209AS2012PTC011052
5	DISANG VALLEY PRIVATE LIMITED	U72300AS2012PTC011055
6	DEUADI INDIA TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63090AS2012PTC011059
7	BOHAGI PROJECTS PRIVATE LIMITED	U70200AS2012PTC011060
8	JUNAKI VENTURES PRIVATE LIMITED	U92413AS2012PTC011062
9	SALVEO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U24232AS2012PTC011066
10	TIHM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200AS2012PTC011067
11	BARAK FOOD AND BEVERAGE PRIVATE LIMITED	U15500AS2012PTC011068
12	PENGREE WINES PRIVATE LIMITED	U52208AS2012PTC011069
13	JOYSHREE WINES PRIVATE LIMITED	U52208AS2012PTC011070
14	WE LINK INTELLIGENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900AS2012PTC011071
15	MOON LIGHT WINES PRIVATE LIMITED	U52100AS2012PTC011072
16	RSBR FORTUNE CONSULTANCY & SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140AS2012PTC011074
17	KAZIRANGA HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101AS2012PTC011076
18	NILAKKHI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U70101AS2012PTC011077
19	TECHLORE PRIVATE LIMITED	U52100MN2012PTC008303
20	REALISSM INDUSTRY INDIA LIMITED	U45209NL2012PLC008322
21	BOHNIMAN REALTORS INDIA PRIVATE LIMITED	U45201AS2012PTC011079

Sr No.	Name	CIN
22	NORTH EASTERN SKILLS VENTURES PRIVATE LIMITED	U80903AS2012PTC011080
23	PPS ESQUIRE TEA ESTATES PRIVATE LIMITED	U01132AS2012PTC011081
24	REVIVAL INDIA PRIVATE LIMITED	U51909AS2012PTC011083
25	MANNAH PLANTATION PRIVATE LIMITED	U01403ML2012PTC008500
26	JEEVAN JYOTI SERVICES PRIVATE LIMITED	U45400AS2012PTC011090
27	TSANGPO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74992AS2012PTC011093
28	PALA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45400ML2012PTC008501
29	POTENTIAL AGRI VENTURES PRIVATE LIMITED	U01119ML2012PTC008502
30	SGANGDAO MARKETING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U51909AS2012PTC011096
31	PAONA PLAZA SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MN2012PTC008304
32	ZEAL INFOMATRIX PRIVATE LIMITED	U72900AS2012PTC011105
33	X2Z TECH PRIVATE LIMITED	U72900AS2012PTC011107
34	INDORIA BEVERAGES PRIVATE LIMITED	U15540AS2012PTC011108
35	ONEXX LOGISTIC PRIVATE LIMITED	U60200AS2012PTC011109
36	KEY2 CAPITAL PRIVATE LIMITED	U65190ML2012PTC008503
37	AMRITDHARA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U15209AS2012PTC011115
38	MACC NET PRIVATE LIMITED	U72900AS2012PTC011116
39	PISGAH HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101MN2012PTC008305
40	BUILD EARTH REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	U70101AS2012PTC011117
41	KARSANG AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15541AS2012PTC011119
42	SUMMON PROJECTS (INDIA) LIMITED	U15209AS2012PLC011121
43	P M INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45209AS2012PTC011122
44	MAHUT MULTI TRADE PRIVATE LIMITED	U51909AS2012PTC011123
45	NRDS IT & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U72300AS2012PTC011124

Sr No.	Name	CIN
46	SIROI UNIQUE DATA SOURCES PRIVATE LIMITED	U74300AS2012PTC011125
47	DITTI REAL ESTATE & MINING PRIVATE LIMITED	U70101ML2012PTC008504
48	JGS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70101AS2012PTC011126
49	R. B. ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U74210AS2012PTC011127
50	OKAY PRODUCTIONS AND DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U92120AS2012PTC011128
51	ANJAYBEE REALITIES PRIVATE LIMITED	U70101AS2012PTC011129
52	PAN-EASTERN JUTE COMPANY PRIVATE LIMITED	U17125AS2012PTC011131
53	DELJITS STEEL & ALLIED INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U36102AS2012PTC011132
54	LA TRAVELLERS TERRA PRIVATE LIMITED	U63040AS2012PTC011134
55	IND MEDXARE PRIVATE LIMITED	U85100AS2012PTC011144
56	MAGH POWERLINE PROJECTS PRIVATE LIMITED	U29253ML2012PTC008506

G.C. YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Puducherry-605 011, the 1st May 2014

No. 3(161) / 2014—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved:-

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	2168	M/s. Aceworks Solutions Private Limited
2.	1240	M/s. Pudhuvai General Finance Private Limited
3.	1801	M/s. Abhiraami Services Private Limited
4.	2123	M/s. Sage Work Software Private Limited
5.	2415	M/s. AJ Internet Outsourcing Solutions Company Private Limited

C.M. KARL MARX
Registrar of Companies
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 2013 and of M/s Tropical Airways Private Limited

Ernakulam-682021, the 26th April 2014

This is with respect to your application (Form EES, 2011) dated 28/01/2011 vide SRN B04111597.

Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 2013, that the name of Tropical Airways Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

K G JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following companies

Bangalore, the 9th April 2014

No. RoC/560/(5) FTE—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of undermentioned companies from serial number 1 to 52 have been struck off the register and the said the companies stand dissolved :--

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U72200KA2007PTC041942	IEARTHSYS SOFTWARE PRIVATE LIMTIED
2	U26941KA1996PTC019693	SAPTHAGIRI HOLLOW BLOCKS PRIVATE LIMITED
3	U19112KA1997PTC023076	SLOVAK INDIA TRADING COMPANY PRIVATE LIMTIED
4	U26999KA1982PTC004881	GEO STONEWARES PRIVATE LIMITED
5	U15122KA1999PTC025705	CULINARY FOODS PRIVATE LIMITED
6	U67190KA2010PTC054104	CHIVUKULA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
7	U45201KA2007FTC044711	ELBIT INDIA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
8	U65993KA2000PTC027047	DBF INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
9	U72200KA2008PTC047351	DESIGNING OUTSTANDING IT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
10	U74130KA2006PTC040963	METRO MARKETING SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
11	U26103KA1999PTC026055	K.V.DISPOSABLES PRIVATE LIMITED
12	U45201KA2006PTC040705	SILVERLINE EVERHOMES SUITES PRIVATE LIMITED
13	U73100KA2006PTC039140	VALUEPOINT IT SERVICES PRIVATE LIMITED
14	U25190KA1990PTC011463	MAHANTESH POLYMERS PRIVATE LIMITED
15	U70109KA2007PTC041847	SOHAM PROPERTIES PRIVATE LIMITED
16	U72200KA2011PTC058404	KOSMOS INFOTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
17	U72200KA2005PTC037400	DECISION STUDIO SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
18	U27100KA2009PTC049610	VISHWATEJ ISPAT PRIVATE LIMITED
19	U35914KA2006PTC040911	PRAVARDHINEE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
20	U51909KA1995PTC018493	K J MULTILATERAL TRADING PRIVATE LIMITED
21	U26915KA2012PTC065769	RAMAKRISHNAPPA POTTERY WORKS PRIVATE LIMITED
22	U72900KA2006PTC040593	NINEMOTION SYSTEMS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
23	U24295KA2007PTC043082	ECOTAPES (INDIA) PRIVATE LIMITED
24	U70200KA2007PTC042799	NIRANTHARA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
25	U74900KA2011PTC061089	GAP DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
26	U74900KA2009PTC049152	VISHNU AVIATION PRIVATE LIMITED
27	U72200KA2008PTC048312	TECHNOVISION SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
28	U74140KA1991PTC012341	M.M. INTERIOR FURNISHERS PRIVATE LIMITED
29	U60232KA2008PTC045981	ULI FREIGHT INDIA PRIVATE LIMITED
30	U72200KA2009PTC050257	PENTANGLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	U85110KA1995PTC018985	SIGNET COMPUTERS PRIVATE LIMITED
32	U85100KA2010PTC052358	CLINIZONE RESEARCH PRIVATE LIMITED
33	U93020KA2008PTC047616	BODYLINE BEAUTY PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
34	U51300KA2007PTC043238	APOLLO MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
35	U72200KA2000PTC027137	BLUE CARBON SOFTWARE PRIVATE LIMITED
36	U85110KA2000PTC027268	ROYAL SEIDE PRIVATE LIMITED
37	U72200KA2006PTC040772	SAFESHORE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
38	U74210KA2007PTC041572	CASHMAN CONSTRUCTION ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
39	U30007KA1999PTC025855	PACIFIC VALLEY KARNATAKA INFOTECH PRIVATE LIMITED
40	U70101KA2008PTC045941	DOMUS PROPERTIES PRIVATE LIMITED
41	U17299KA2008PTC046051	BW CLOTHING PRIVATE LIMITED
42	U51109KA2008PTC047630	AFFLUENCE EDIFICE FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
43	U74140KA2006PTC040417	PNV TECHNO ACQUISITIONS PRIVATE LIMITED
44	U72900KA2009PTC050283	BHAAVIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
45	U31909KA2005PTC036220	VERTEX ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
46	U72400KA2008PTC048493	SIMULMEDIA SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
47	U45400KA2003PLC033047	GOLDEN HOME CONSTRUCTIONS INDIA LIMITED
48	U15400KA2009PTC051748	ORIENT AGRO EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
49	U72900KA2011PTC061741	HUNGRY LABS PRIVATE LIMITED
50	U24232KA2011PTC057739	CASCADES PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
51	U45201KA2009PTC051031	OCEAN STAR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
52	U74999KA2008PTC045730	GOMMATESHWARA LOGISTICS PRIVATE LIMITED

A. SEHAR PONRAJ
DY. REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following companies

Bangalore, the 10th April 2014

NO. ROC/560/(5) FTE- NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB- SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAME OF UNDER MENTIONED COMPANIES FROM SERIAL NUMBER 1 TO 21 HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES STAND DISSOLVED:-

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U15135KA2008PTC047788	JAM SHOP(INDIA) PRIVATE LIMITED
2	U72200KA1999PTC024760	MAINI INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3	U72200KA2000PTC028211	RAIBAGI TELESERVICES PRIVATE LIMITED
4	U70102KA2008PTC047858	JIA PROJECTS PRIVATE LIMITED
5	U74992KA2007PTC044639	INSIGNIA INSURANCE BROKING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
6	U24134KA2006PTC040300	VT POLYMERS PRIVATE LIMITED
7	U72200KA2010PTC053320	NEWSAPLING INFOTECH PRIVATE LIMITED
8	U72900KA2007PTC042981	AUTOTEC EMBEDDED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
9	U24100KA2010PTC055957	HERBAL ELEMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
10	U73100KA2007PTC042427	XANEDA TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
11	U02922KA1999PTC025256	MURTHY SCHREYER PRIVATE LIMITED
12	U72200KA2000PTC026611	IW SOFTWARE INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
13	U72900KA2009PTC049478	SYMM (INDIA) SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
14	U72200KA2007PTC041684	GARNET INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
15	U51909KA2008PTC045001	HIGH GROWTH AGENCIES(INDIA) PRIVATE LIMITED
16	U72200KA2008PTC046236	SILAN SOLUTION PRIVATE LIMITED
17	U70101KA2005ULT037508	NAKSHATRA DEVELOPERS BANGALORE PRIVATE LIMITED
18	U72200KA2005PTC036046	SHORE CONSULTING PRIVATE LIMITED
19	U29253KA2012PTC065720	I-MAAPANA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	U45202KA2005PTC037840	B.A. TECHPARK PRIVATE LIMITED
21	U72900KA2011PTC058036	MINDSTORM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

A. SEHAR PONRAJ
DY. REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

BANGALORE, DATED 1st MAY 2014

NO. ROC/560/(5) FTE- NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB- SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAME OF UNDER MENTIONED COMPANIES FROM SERIAL

NUMBER 1 TO 13 HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES STAND DISSOLVED:-

Sl. No	CIN NO.	COMPANY NAME
1.	U51505KA2012PTC062272	BLC LIGHTING (INDIA) PRIVATE LIMITED
2.	U15111KA1995PTC019239	BRIGHT SNACK FOODS PRIVATE LIMITED
3.	U00360KA1996PLC021068	MAHARASHTRA BROADBAND NETWORKS LIMITED
4.	U72200KA2009PTC051670	STEEPLE TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5.	U72200KA2006PTC041195	MPOWER IT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
6.	U72900KA2010PTC053439	RADIFINITY CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
7.	U24239KA2009PTC052010	PHYTOTRENDZ HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8.	U65993KA2007PTC044587	ICON SMART INVEST VENTURES PRIVATE LIMITED
9.	U72200KA2010PTC05570	REMOTE AND MANGAEMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
10.	U67200KA2008PTC047611	TRILOGY INSURANCE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
11.	U45205KA2011PTC059400	TRANSINFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
12.	U73100KA2008PTC047933	JOHNSON AND WILKINS LABORATORIES PRIVATE LIMITED
13.	U45201KA2006PLC038752	UTL INFRASTRUCTURE LIMITED

M.R. BHAT
REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

CHENNAI, the 29th April 2014

NO.14912 to 93049/ 560(5)/FTE-2011-- NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB-SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT,1956, THAT AT THE NAMES OF THE FOLLOWING COMPANIES HAVE THIS DAY BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES WILL BE DISSOLVED :--

S.No.	Company No.	Name of the Company
1	14912	PSG ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
2	15622	REEFER MECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
3	18029	DIMO LEATHER APPAREL PRIVATE LIMITED
4	22245	V.T.K.INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
5	22561	KUTTALAM FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
6	23123	HOTEL BLUE SEAS PRIVATE LIMITED
7	24443	GREAMES FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
8	29956	NAVJEEVAN AGRO FOODS LIMITED
9	41531	ARM MARINES PRIVATE LIMITED
10	43251	ABHIRAMI SHARES & STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED

S.No.	Company No.	Name of the Company
11	44760	BRANDS BAZAAR INDIA.COM PRIVATE LIMITED
12	47312	D B M ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
13	47377	TRIWIN FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
14	51463	CHENNAI NEW RAJA TRADERS PRIVATE LIMITED
15	51738	YOSHI INFOTEL PRIVATE LIMITED
16	52670	M6 MACHINERIES INDIA PRIVATE LIMITED
17	54749	GENERAL STAR KITCHEN PRIVATE LIMITED
18	55037	KANDHIMATHI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
19	55480	NEVITT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
20	55996	PRIME E CINEMAS PRIVATE LIMITED
21	56273	MATRIXVIEW INTEGRATED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
22	56281	VEEDUGAL DOMAIN PRIVATE LIMITED
23	56676	S.R.TECH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
24	56838	MSC ENGINEERING (INDIA) PRIVATE LIMITED
25	57028	ROYAL HOUSING AND HOSPITALITY SERVICE PRIVATE LIMITED
26	57108	SUMER COMPUTERS & PERIPHERALS PRIVATE LIMITED
27	57936	LOTUS MANPOWER INDIA PRIVATE LIMITED
28	59906	H AND T OFFSHORE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
29	60120	P N S ENGINEERING PRIVATE LIMITED
30	60658	STARPOL SHIPPING (INDIA) PRIVATE LIMITED
31	61428	TECHFORZA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
32	61432	RKKR POWERGEN PRIVATE LIMITED
33	61506	SOMAYAJULU FOREX PRIVATE LIMITED
34	62725	PUGAZH BIO OIL INDIA PRIVATE LIMITED
35	63230	ANABOND TANTALUM PRIVATE LIMITED
36	63497	KAPOOR TRADELINES PRIVATE LIMITED
37	64027	EARTH SHELTERS PRIVATE LIMITED
38	64030	ADITAXIA CONSULTING PRIVATE LIMITED
39	64375	STAR ENVICON PROJECTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
40	64391	MARVEL MACTECH PRIVATE LIMITED
41	64506	RAJALAKSHMI JEWELLERS PRIVATE LIMITED
42	64828	IVAIDHYA BPO SERVICES PRIVATE LIMITED
43	65016	DIZYATEC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
44	65195	HASTHA 7 TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
45	65583	ISIGMA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.No.	Company No.	Name of the Company
46	65718	UNIFIVE IMPEX PRIVATE LIMITED
47	65843	TECHMEDIA ADVERTISING (INDIA) PRIVATE LIMITED
48	66798	DOUBLE HELIX PROPERTIES PRIVATE LIMITED
49	66921	KARUR BUS BODY BUILDERS CLUSTER PRIVATE LIMITED
50	67025	LITTLE GREEN FROG COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
51	68203	ROSE FASHIONS & DESIGNS LIMITED
52	68586	YELDI TELECOM PRIVATE LIMITED
53	68760	EAST WEST TECHNOLINK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
54	69556	SLOKA CAPITAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
55	69678	JEBIN TECH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
56	69746	DEVRAJ WIND FARMS PRIVATE LIMITED
57	69964	SKYLIM MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
58	71640	SRI RAJGURU IMPEX PRIVATE LIMITED
59	71698	TSVP TRADING PRIVATE LIMITED
60	71758	THIRU EXIM PRIVATE LIMITED
61	71828	SANKESHWAR TRADECOM PRIVATE LIMITED
62	72032	RUPAL SHARE BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED
63	72511	ARTHA NETWORK SERVICES LIMITED
64	72613	WINSTON JOSEPH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
65	73722	BLAZE RESTAURANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
66	73904	CASSEL EXPORTS PRIVATE LIMITED
67	74093	DHANALAKSHMI SRINIVASAN MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
68	74327	BUSINESS ACCELERATOR NSM INDIA PRIVATE LIMITED
69	74622	MCP INDUSTRIAL COMPLEX PRIVATE LIMITED
70	75116	SAMBHAV ENERGY (MP) PRIVATE LIMITED
71	75261	DHANALAKSHMI SRINIVASAN SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
72	75360	GROSSMAN WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
73	75361	BALAJEE FIDELITY SERVICES PRIVATE LIMITED
74	75633	PRINITY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
75	76008	GUDUR THERMAL LIMITED
76	76461	WOODLANDS TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
77	77123	OSIYAN OXYGEN PRIVATE LIMITED
78	77362	WILLWIN ELEARN PRIVATE LIMITED
79	77553	SKYVIEW EARTH RESOURCES PRIVATE LIMITED
80	77554	FAUNA LAND RESOURCES PRIVATE LIMITED

S.No.	Company No.	Name of the Company
81	77557	SOUTHSTAR HIGHLAND RESOURCES PRIVATE LIMITED
82	77559	BANTAM PROPERTY RESOURCES PRIVATE LIMITED
83	77565	TURQUOISE PROPERTY RESOURCES PRIVATE LIMITED
84	77580	KABINI LAND RESOURCES PRIVATE LIMITED
85	77601	SOUTHSTAR EARTH RESOURCES PRIVATE LIMITED
86	77605	BANTAM EARTH RESOURCES PRIVATE LIMITED
87	77606	GODAVARI EARTH RESOURCES PRIVATE LIMITED
88	77615	PALLAVAN HIGHLAND RESOURCES PRIVATE LIMITED
89	77894	CARDINALS LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
90	77895	SWAN LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
91	77896	KURINJI LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
92	77899	TURQUOISE LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
93	77900	CAMEL LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
94	77901	DUBLIN LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
95	77911	DEWFLOWER LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
96	77913	SABARI LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
97	77915	NIGHTINGALE LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
98	77916	VAIGAI LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
99	77918	THAMARAI LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
100	77919	MATSYA LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
101	77926	PRISTINE LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
102	77927	PETUNIA LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
103	77928	METTUR LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
104	77929	FLORIDA LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
105	77953	TRIVENI LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
106	77955	TRISEA LAND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
107	78094	SIFY EMPOWER INDIA FOUNDATION PRIVATE LIMITED
108	81337	TUCANA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
109	83245	UNIQUE MULTI-IMPEX PRIVATE LIMITED
110	83454	MOGH ENERGY PRIVATE LIMITED
111	83686	TECHNOCHAI ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
112	83755	INDIAN MARINE AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
113	83897	DHANALAKSHMI SRINIVASAN NETWORK PRIVATE LIMITED
114	84275	DEV WIND ENERGY PRIVATE LIMITED

S.No.	Company No.	Name of the Company
115	85265	ALLIED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
116	85296	FEATHERLITE CONTRACTING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
117	86178	SIVI ENERGIES PRIVATE LIMITED
118	86577	JVS ULTRA TECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
119	86855	GREENOVATION ECO VENTURES PRIVATE LIMITED
120	86857	FLEXIGRADE MARKETING PRIVATE LIMITED
121	88407	RASI LOGISTICS PRIVATE LIMITED
122	88601	ADORE GLOBAL PRIVATE LIMITED
123	89220	SHRIRAM INSURANCE BROKING COMPANY LIMITED
124	90581	PALANI MURUGAN STEELS PRIVATE LIMITED
125	90950	PIXAR INFRACON LIMITED
126	93049	ARMANZA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.MEENAKSHI
DY. REGISTRAR OF COMPANIES
TAMILNADU

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in